

टेबल 2.6 : अनुसूचित वाणिज्य बैंको के बैंक समूह-वार चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008

(प्रतिशत में)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति									
	भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी		राष्ट्रीयकृत बैंक \$		विदेशी बैंक		अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. नकदी-जमा अनुपात	7.08	9.65	7.16	9.22	8.06	11.52	7.41	10.56	7.24	9.73
2. ऋण-जमा अनुपात	76.13	76.72	70.39	71.65	83.81	84.31	75.14	76.79	73.46	74.61
3. निवेश-जमा अनुपात	33.45	34.09	33.29	31.86	47.41	51.75	38.89	41.21	35.26	35.43
4. (ऋण+निवेश)-जमा अनुपात	109.58	110.81	103.68	103.51	131.22	136.07	114.03	118.00	108.72	110.03
5. कुल देयताओं से जमाशायियों का अनुपात	78.62	76.53	83.26	83.54	54.94	52.49	74.05	71.80	77.95	76.74
6. कुल जमाशायियों से सावधि जमाशायियों का अनुपात	57.11	58.03	64.57	67.01	54.90	55.29	70.17	67.17	63.42	64.27
7. कुल अग्रिमों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों का अनुपात	32.64	30.82	34.69	32.56	27.44	29.59	31.58	29.27	33.08	31.26
8. कुल अग्रिमों से मीयादी ऋणों का अनुपात	54.84	55.19	54.91	55.62	51.47	48.90	70.31	69.51	57.90	57.99
9. कुल अग्रिमों से आरक्षित अग्रिमों का अनुपात	78.59	76.74	82.67	79.96	54.34	47.18	81.42	79.23	79.61	76.90
10. कुल निवेशों से गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का अनुपात	14.58	19.78	19.13	17.40	21.22	16.13	25.51	30.21	19.72	20.86
11. ब्याज आय और कुल आस्तियों का अनुपात	7.14	7.75	7.49	7.88	7.57	7.65	7.53	8.44	7.42	7.95
12. निवल ब्याज मार्जिन और कुल आस्तियों का अनुपात	2.79	2.49	2.80	2.33	4.36	4.33	2.54	2.69	2.86	2.61
13. ब्याजेतर आय और कुल आस्तियों का अनुपात	1.26	1.30	0.96	1.10	2.97	3.30	1.87	2.00	1.38	1.52
14. मध्यस्थता लागत और कुल आस्तियों का अनुपात	2.13	1.87	1.84	1.62	3.27	3.24	2.33	2.40	2.12	1.98
15. मजदूरी बिल और मध्यस्थता लागत का अनुपात	65.49	60.58	63.56	61.71	39.78	39.89	34.36	35.10	54.51	51.55
16. मजदूरी बिल और कुल व्यय का अनुपात	21.55	15.89	17.94	13.98	20.07	19.71	10.93	10.34	17.32	13.96
17. मजदूरी बिल और कुल आय का अनुपात	16.65	12.52	13.87	11.16	12.34	11.82	8.51	8.08	13.16	10.79
18. बोझ (बर्दन) और कुल आस्तियों का अनुपात	0.88	0.57	0.88	0.52	0.30	-0.05	0.46	0.40	0.75	0.46
19. बोझ (बर्दन) और ब्याज आय का अनुपात	12.28	7.35	11.74	6.62	3.91	-0.72	6.07	4.78	10.05	5.78
20. परिचालन लाभ और कुल आस्तियों का अनुपात	1.91	1.92	1.92	1.81	4.06	4.38	2.08	2.28	2.11	2.15
21. आस्तियों पर लाभ	0.86	0.97	0.94	1.01	2.28	2.57	1.02	1.13	1.05	1.16
22. ईक्विटी पर लाभ	16.31	17.21	15.97	17.09	15.98	16.05	13.71	13.43	15.51	15.98
23. जमाशायियों की लागत	4.81	5.91	4.96	5.99	3.59	4.26	5.37	6.47	4.93	5.97
24. उधार की लागत	3.90	5.72	2.30	2.74	5.34	4.82	3.60	3.55	3.56	4.02
25. निधियों की लागत	4.75	5.90	4.80	5.83	4.03	4.40	5.18	6.13	4.82	5.81
26. अग्रिमों पर लाभ	8.47	9.55	8.79	9.50	9.78	10.93	9.55	11.01	8.93	9.92
27. निवेशों से लाभ	6.81	7.11	7.49	7.52	8.61	8.24	6.50	7.28	7.19	7.43
28. निधियों के लागत के साथ एडजस्ट किए गए अग्रिमों पर लाभ	3.72	3.65	3.99	3.67	5.74	6.54	4.38	4.87	4.12	4.11
29. निधियों की लागत के साथ एडजस्ट किए गए निवेशों पर लाभ	2.06	1.22	2.68	1.69	4.58	3.84	1.32	1.15	2.37	1.62

टिप्पणी : \$ आइडीबीआई बैंक लि. शामिल हैं ।

स्त्रोत : बैंको के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखों से संकलित ।